



प्रेषक,

श्रीमती कविता नवियाल,  
वित्त अधिकारी,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तरांचल।

राज्य निर्वाचन आयोग, अनुभाग:लेखा देहरादून।

विषय:- वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अधिष्ठान की विभिन्न अवचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग के पत्र संख्या-479/XII/2005/82(26)/2003 दिनांक 15 जून, 2005 तथा राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-298/रा0नि0आ0/लेखा-489 (2)/2005 दिनांक 26 मई, 2005 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में जिला स्तरीय अधिष्ठान व्यय हेतु विभिन्न वचनबद्ध मदों में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त विभिन्न अवचनबद्ध मदों में रूपये 1729000/- (रूपये सत्रह लाख उन्नतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न-परिशिष्ट-'क' के अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाएगा। उक्तानुसार आवंटित धनराशि के फलस्वरूप कुल आवंटित धनराशि रूपये 3139000/- (रूपये इक्तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) होगी।

2. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जाए। इससे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जाएगा। आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

3. आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी/जारी होने वाले आदेशों/निर्देश, टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

4. निर्माण कार्यो एवं सामग्री क्रय करने हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 पर प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य, ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।  
संलग्न-यथोक्त।


भवदीया,

(श्रीमती कविता नवियाल),  
वित्त अधिकारी।

संख्या 365 (1)/रा0नि0आ0/लेखा(489(2))/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि निर्वाचन कार्यालय, उत्तरांचल।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

  
(श्रीमती कविता नवियाल),  
वित्त अधिकारी।

## राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल

(वित्तीय वर्ष 2005-2006)

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग-जिला स्तरीय

(घनराशि रूपसे में)

पत्र संख्या 385/रा0नि0आ0/लेखा/489/2004 दिनांक 26 जून, 2005

| क्र0<br>सं0 | जनपद का नाम   | 01-वैतन     |               |     | 03-महंगाई भत्ता |               |     | 04-यात्रा भत्ता |               |     | 06 अन्य भत्ते |               |     | 08-कार्यालय व्यय |               |     | 09-विद्युत व्यय |               |     |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|
|             |               | पूर्व आवंटन | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन     | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन     | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन   | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन      | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन     | वर्तमान आवंटन | योग |
| 1           | अल्मोड़ा      | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 15              | 0             | 15  | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 2           | ऊधमसिंहनगर    | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 8               | 0             | 8   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 3           | चम्पावत       | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 6               | 0             | 6   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 4           | कैनीताल       | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 8               | 0             | 8   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 5           | पिथौरागढ़     | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 5               | 0             | 5   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 6           | बागेश्वर      | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 5               | 0             | 5   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 7           | उत्तरकाशी     | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 5               | 0             | 5   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 8           | चमोली         | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 5               | 0             | 5   | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 9           | दिल्ली गढ़वाल | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 10              | 0             | 10  | 0             | 0             | 0   | 0                | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   |
| 10          | देहरादून      | 110         | 0             | 110 | 40              | 0             | 40  | 10              | 0             | 10  | 20            | 0             | 20  | 15               | 0             | 15  | 8               | 0             | 8   |
| 11          | पीढ़ी गढ़वाल  | 43          | 0             | 43  | 16              | 0             | 16  | 10              | 0             | 10  | 8             | 0             | 8   | 15               | 0             | 15  | 8               | 0             | 8   |
| 12          | रूद्रप्रयाग   | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 65              | 0             | 65  | 0             | 0             | 0   | 10               | 0             | 10  | 15              | 0             | 15  |
| 13          | हरिद्वार      | 0           | 0             | 0   | 0               | 0             | 0   | 140             | 0             | 140 | 0             | 0             | 0   | 25               | 0             | 25  | 15              | 0             | 15  |
|             | योग           | 153         | 0             | 153 | 56              | 0             | 56  | 292             | 0             | 292 | 28            | 0             | 28  | 100              | 0             | 100 | 57              | 0             | 57  |



अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग-जिला स्वरीय (धनराशि रूपदे में)

पत्र संख्या-305/रा0नि0आ10/लेखा/489/2004 दिनांक 20 जून, 2005

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम  | 10-जलकर/जल प्रभार |               |     | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई |               |     | 12-कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण |               |     | 13-टेलीफोन पर व्यय |               |     | 15-गाडियों का अनुरक्षण |               |     | 17-किराया एवं उपशुल्क |               |     |
|----------|--------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|-----|------------------------|---------------|-----|-----------------------|---------------|-----|
|          |              | पूर्व आवंटन       | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन                         | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन                   | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन        | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन            | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन           | वर्तमान आवंटन | योग |
| 1        | अल्मोड़ा     | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 100           | 100 | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 2        | कंधमसिंहनगर  | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 90            | 90  | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 3        | चम्पावत      | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 35            | 35  | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 4        | कैनाल        | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 45            | 45  | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 5        | पिथौरागढ़    | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 80            | 80  | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 6        | बागेश्वर     | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 5             | 5   | 0                             | 0             | 0   | 0                  | 0             | 0   | 0                      | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   |
| 7        | उलरकरगौ      | 1                 | 0             | 1   | 0                                   | 90            | 90  | 0                             | 5             | 5   | 10                 | 0             | 10  | 15                     | 0             | 15  | 0                     | 0             | 0   |
| 8        | चमोली        | 1                 | 0             | 1   | 0                                   | 5             | 5   | 5                             | 5             | 10  | 10                 | 0             | 10  | 5                      | 0             | 5   | 0                     | 0             | 0   |
| 9        | टिहरी गढ़वाल | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 130           | 130 | 0                             | 5             | 5   | 10                 | 0             | 10  | 10                     | 0             | 10  | 0                     | 0             | 0   |
| 10       | देहरादून     | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 50            | 50  | 0                             | 10            | 10  | 6                  | 0             | 6   | 10                     | 0             | 10  | 0                     | 0             | 0   |
| 11       | पौड़ी गढ़वाल | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 30            | 30  | 0                             | 0             | 0   | 6                  | 0             | 6   | 10                     | 0             | 10  | 0                     | 0             | 0   |
| 12       | रूद्रप्रयाग  | 1                 | 0             | 1   | 0                                   | 10            | 10  | 0                             | 5             | 5   | 8                  | 0             | 8   | 10                     | 0             | 10  | 0                     | 0             | 0   |
| 13       | हरिद्वार     | 0                 | 0             | 0   | 0                                   | 80            | 80  | 0                             | 10            | 10  | 32                 | 0             | 32  | 500                    | 0             | 500 | 0                     | 0             | 0   |
|          | योग          | 3                 | 0             | 3   | 0                                   | 750           | 750 | 0                             | 40            | 40  | 86                 | 0             | 86  | 565                    | 0             | 565 | 0                     | 0             | 0   |

*(Handwritten signature)*

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेतर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग-जिला स्वरीय  
 पत्र संख्या-35 /रा10नि0आ10/लेखा/489/2004 दिनांक 20 जून, 2005  
 (धनशील रूपये में)

| क्र0 सं0 | व्यय का नाम  | 27-चिकित्सा व्यय |               |     | 42-अन्य व्यय |               |     | 45-अवकाश यात्रा भत्ता |               |     | 46-कम्प्यूटर क्रय |               |     | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण |               |     | 48-महंगाई वेतन |               |     |
|----------|--------------|------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|-----------------------|---------------|-----|-------------------|---------------|-----|-----------------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|
|          |              | पूर्व आवंटन      | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन  | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन           | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन       | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन           | वर्तमान आवंटन | योग | पूर्व आवंटन    | वर्तमान आवंटन | योग |
| 1        | अल्पवृद्धा   | 37               | 38            | 39  | 40           | 41            | 42  | 43                    | 44            | 45  | 46                | 47            | 48  | 49                    | 50            | 51  | 52             | 53            | 54  |
| 2        | कथमसिंहनगर   | 0                | 0             | 0   | 0            | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 3        | चम्पावत      | 0                | 0             | 0   | 0            | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 4        | नैनीताल      | 0                | 0             | 0   | 0            | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 5        | पिथौरागढ़    | 0                | 0             | 0   | 0            | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 6        | बागेश्वर     | 0                | 0             | 0   | 0            | 125           | 125 | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 60            | 60  | 0                     | 10            | 10  | 0              | 0             | 0   |
| 7        | उत्तरकाशी    | 0                | 2             | 2   | 0            | 245           | 245 | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 8        | चमोली        | 0                | 0             | 0   | 0            | 5             | 5   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 10            | 10  | 50             | 0             | 50  |
| 9        | टिहरी गढ़वाल | 0                | 0             | 0   | 0            | 155           | 155 | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 10            | 10  | 20             | 0             | 20  |
| 10       | देहरादून     | 0                | 15            | 15  | 0            | 135           | 135 | 0                     | 0             | 0   | 32                | 32            | 0   | 0                     | 0             | 0   | 0              | 0             | 0   |
| 11       | पौड़ी गढ़वाल | 0                | 2             | 2   | 0            | 5             | 5   | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 10            | 10  | 0              | 0             | 0   |
| 12       | रूढ़प्रयाग   | 0                | 0             | 0   | 0            | 100           | 100 | 0                     | 0             | 0   | 0                 | 0             | 0   | 0                     | 50            | 50  | 70             | 0             | 70  |
| 13       | हरिद्वार     | 0                | 8             | 8   | 0            | 770           | 770 | 0                     | 0             | 0   | 92                | 92            | 0   | 0                     | 50            | 50  | 0              | 0             | 0   |
|          | योग          | 0                | 27            | 27  | 0            | 770           | 770 | 0                     | 0             | 0   | 92                | 92            | 0   | 0                     | 50            | 50  | 70             | 0             | 70  |

Nic-299

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग-जिला पत्र संख्या-255/रा0नि0आ10/लेखा/489/2004 दिनांक 22 जून, 2005

(धनराशि रूपये में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम   | कुल योग     |               |      |
|----------|---------------|-------------|---------------|------|
|          |               | पूर्व आवंटन | वर्तमान आवंटन | योग  |
| 1        | अल्मोड़ा      | 55          | 56            | 57   |
| 2        | कथमसिंहनगर    | 15          | 100           | 115  |
| 3        | चम्पावत       | 5           | 90            | 95   |
| 4        | चम्पावत       | 8           | 35            | 43   |
| 5        | भैरवावल       | 6           | 45            | 51   |
| 6        | पिथौरागढ़     | 8           | 80            | 88   |
| 7        | वागेश्वर      | 5           | 5             | 10   |
| 8        | उत्तरकाशी     | 51          | 292           | 343  |
| 9        | चमसैली        | 51          | 265           | 316  |
| 10       | टिहरी गढ़वाल  | 39          | 140           | 179  |
| 11       | देहरादून      | 265         | 240           | 505  |
| 12       | पीड्डी गढ़वाल | 136         | 209           | 345  |
| 13       | रूद्रप्रयाग   | 109         | 20            | 129  |
| 14       | हरिद्वार      | 712         | 208           | 920  |
|          | योग           | 1410        | 1729          | 3139 |

(रूपये सत्रह लाख उन्तीस हजार मात्र)

(श्रीमती कविता नन्दिवाल)

वित्त अधिकारी।